



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 2] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 13—जनवरी 19, 2007 (पौष 23, 1928)
No. 2] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 13—JANUARY 19, 2007 (PAUSA 23, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

[भाग I—खण्ड 2]

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

प्रधान मंत्री कार्यालय

दिनांक 21 दिसम्बर 2006

नई दिल्ली-110 011, दिनांक 29 दिसम्बर 2006

सं. ए-35020/1/2006-पी.एम.ए.--राष्ट्रपति जी, श्री अरुण भटनागर, आई.ए.एस. (सेवा-निवृत्त) की नियुक्ति का कार्यकाल भारत सरकार के सचिव के रैंक और वेतनमान में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् के सचिव के रूप में संविदा आधार पर दिनांक 30 जून, 2007 तक बढ़ाते हैं।

पी. के. राय, अवर सचिव

सं. ए-43014/03/2006-प्रशा. II--वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामले विभाग के आदेश सं. 11016/3/2006-आई ई एस दिनांक 8.12.2006 के तहत भारतीय आर्थिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में उनकी पदोन्नति के फलस्वरूप, श्री ए.एस. जांजरिया को योजना आयोग में वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के पद से 21 दिसंबर 2006 की अपराह्न से कार्यभार मुक्त किया जाता है।

आर. के. परमार, अवर सचिव

योजना आयोग

विधि एवं न्याय मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 दिसम्बर 2006

(न्याय विभाग)

सं. ए-43014/03/2006-प्रशा. II--वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के आदेश सं. 11016/3/2006-आई ई एस, दिनांक 08.12.2006 के द्वारा भारतीय आर्थिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (जेएजी) में पदोन्नति के फलस्वरूप, श्री सूरज प्रकाश रावल को योजना आयोग में वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के पद से दिनांक 18 दिसंबर 2006 के अपराह्न से कार्यभार मुक्त किया जाता है।

आर. के. परमार, अवर सचिव

नई दिल्ली-110 011, दिनांक 19 दिसम्बर 2006

सं. के. 13012/3/2006-यू.एस. II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश (i) न्यायविद् श्री भारत भूषण अग्रवाल, (ii) न्यायविद् श्री गंगा प्रसाद श्रीवास्तव और (iii) न्यायविद् श्री मुनेन्द्र कुमार मित्तल को उसी वरीयता क्रम में, उस तारीख,

जब वे अपना-अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से इलाहाबाद उच्च न्यायालय का न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

डॉ. पी. के. सेठ, संयुक्त सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 दिसम्बर 2006

सं. आई-14011/6/2006-आई.पी.एस.-1(I)--भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 7 के उप-विनियम (3) में नीति उपबंधों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग ने चयन समिति की बैठक में दिनांक 30.10.2006 को बनाई गई वर्ष 2005 और 2006 की उस चयन सूची को दिनांक 15.12.2006 को अनुमोदित कर दिया है जिसमें भारतीय पुलिस सेवा के पश्चिम बंगाल संवर्ग में वर्ष 2005 में ग्यारह व 2006 में आठ मौलिक रिक्तियों को भरे जाने हेतु पश्चिम बंगाल राज्य पुलिस सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों का नाम शामिल किया गया है:--

चयन सूची 2005

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
1.	शेरिंग फिनेहुक शेरपा (अ.ज.जा.)	20.09.1954
2.*	सुनील कुमार हल्दर	02.09.1958
3.	सत्यजीत बन्धोपाध्याय	01.05.1958
4.	कल्याण बन्धोपाध्याय	19.06.1958
5.	भुवन चन्द्र मण्डल (अ.ज.जा.)	21.10.1952
6.	श्रीमती चीलिंग सिमिक लेप्चा (अ.ज.जा.)	02.01.1961
7.	तमल बासु	06.08.1960
8.	असित पाल	01.01.1955
9.	चंपक भट्टाचार्य	31.12.1957
10.	सुब्रता बन्धोपाध्याय	08.07.1955
11.	अर्जुन कुमार घोष	03.01.1956

* क्रम संख्या 2 पर दिए गए नाम को उनके विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही के निपटान किए जाने एवं उन्हें राज्य सरकार द्वारा सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने के अध्यधीन सूची में अंतिम रूप से शामिल किया गया है।

चयन सूची 2006

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
1	2	3
*#0-A	सुनील कुमार हल्दर	02.09.1958
1.	दिलिप कुमार अदक	06.08.1956
2.	बासब दास गुप्ता	24.01.1962

1	2	3
3.	अशोक कुमार विश्वास (अ.ज.जा.)	18.09.1960
4.	सुब्रता कुमार मित्रा (अ.ज.जा.)	01.01.1959
5.	मिलन कान्ता दास	26.05.1957
6.	कलोल गनाई	13.09.1963
7.	रबिन्द्र नाथ मुखोपाध्याय	29.02.1956
8.	देबासीस बोरल	01.07.1962

* क्रम संख्या 0-A पर दिए गए नाम को उनके विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही के निपटान किए जाने एवं उन्हें राज्य सरकार द्वारा सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने के अध्यधीन सूची में अंतिम रूप से शामिल किया गया है।

चयन सूची में क्रम संख्या 0-A पर सम्मिलित अधिकारी का नाम विनियम 5(5) के नीचे दिए गए दूसरे परन्तुक के अनुसार उपयुक्त अधिकारी के सामान्य पात्रता क्षेत्र एवं चयन सूची के सामान्य आकार के अतिरिक्त है।

ओ. एस. अशोक, अवर सचिव

सं. आई-14011/6/2006-आई.पी.एस.-1(II)--भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पश्चिम बंगाल राज्य पुलिस के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय पुलिस सेवा में परीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 5 के उप-विनियम (1) के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल संवर्ग प्रदान करते हैं। यह नियुक्तियां अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगी।

चयन सूची 2005

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
1.	शेरिंग फिनेहुक शेरपा (अ.ज.जा.)	20.09.1954
2.	सत्यजीत बन्धोपाध्याय	01.05.1958
3.	कल्याण बन्धोपाध्याय	19.06.1958
4.	भुवन चन्द्र मण्डल (अ.ज.जा.)	21.10.1952
5.	श्रीमती चीलिंग सिमिक लेप्चा (अ.ज.जा.)	02.01.1961
6.	तमल बासु	06.08.1960
7.	असित पाल	01.01.1955
8.	चंपक भट्टाचार्य	31.12.1957
9.	सुब्रता बन्धोपाध्याय	08.07.1955
10.	अर्जुन कुमार घोष	03.01.1956

चयन सूची 2006

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
1	2	3
1.	दिलिप कुमार अदक	06.08.1956
2.	बासब दास गुप्ता	24.01.1962
3.	अशोक कुमार बिश्वास (अ.जा.)	18.09.1960
4.	सुब्रता कुमार मित्रा (अ.जा.)	01.01.1959
5.	मिलन कान्ता दास	26.05.1957
6.	कलोल गनार्ई	13.09.1963
7.	रबिन्द्र नाथ मुखोपाध्याय	29.02.1956
8.	देबासीस बोरल	01.07.1962

ओ. एस. अशोक, अवर सचिव

दिनांक 2 जनवरी 2007

सं. आई-14011/8/2005-आई.पी.एस.-1(I)--भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 7 के उप-विनियम (3) में नीति उपबंधों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग ने चयन समिति की बैठक में दिनांक 20.10.2006 को बनाई गई वर्ष 2002, 2003, 2004 और 2005 की उन चयन सूचियों को दिनांक 20.12.2006 को अनुमोदित कर दिया है जिसमें संयुक्त भारतीय पुलिस सेवा के ए.जी. एम.यू. संवर्ग में वर्ष 2002 में तीन, 2003 में दो, 2004 में दो और 2005 में दो मौलिक रिक्तियों को भरे जाने हेतु दिल्ली-अंडमान-निकोबार पुलिस सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों का नाम शामिल किया गया है :—

चयन सूची 2002

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
1	2	3
	सर्वश्री	
1.	के.सी. द्विवेदी	27.05.1955
2.	यू.के. चौधरी	02.09.1952
3.	जी.सी. द्विवेदी	01.09.1955

चयन सूची 2003

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
1	2	3
	सर्वश्री	
1.	पुरषोत्तम दास (अ.जा.)	12.06.1950
2.	पलदन (अ.ज.जा.)	15.06.1955

चयन सूची 2004

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
1	2	3
	सर्वश्री	
1.	वी. रंगनाथन	19.03.1957
2.	अशोक चांद	20.06.1955

चयन सूची 2005

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
1	2	3
	सर्वश्री	
1.	ए.के. ओझा	05.01.1957
2.	वी.वी. चौधरी	21.08.1955

ओ. एस. अशोक, अवर सचिव

सं. आई-14011/8/2005-आई.पी.एस.-1(II)--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली-अंडमान-निकोबार पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय पुलिस सेवा में परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 5 के उप-विनियम (1) के अन्तर्गत संयुक्त ए.जी.एम.यू. संवर्ग प्रदान करते हैं :—

चयन सूची 2002

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
1	2	3
	सर्वश्री	
1.	के.सी. द्विवेदी	27.05.1955
2.	यू.के. चौधरी	02.09.1952
3.	जी.सी. द्विवेदी	01.09.1955

चयन सूची 2003

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
1	2	3
	सर्वश्री	
1.	पुरषोत्तम दास (अ.जा.)	12.06.1950
2.	पलदन (अ.ज.जा.)	15.06.1955

चयन सूची 2004

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 6 दिसम्बर 2006

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
1	2	3
	सर्वश्री	
1.	वी. रंगनाथन	19.03.1957
2.	अशोक चांद	20.06.1955

चयन सूची 2005

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
1	2	3
	सर्वश्री	
1.	ए.के. ओझा	05.01.1957
2.	वी.वी. चौधरी	21.08.1955

2. यह नियुक्तियां अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगी।

ओ. एस. अशोक, अवर सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 28 दिसम्बर 2006

सं. 39019/02/2006-स्था.(ख)--राष्ट्रपति, प्रो. ई. बालागुरुसामी, पूर्व उप कुलपति, अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई को 20 दिसम्बर, 2006 के अपराह्न से सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग के रूप में नियुक्त करते हैं।

बी. एम. सहगल, अवर सचिव

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 12 अक्टूबर 2006

सं. 05/पीबी-III/2006--निवर्तन की आयु प्राप्त होने पर भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिक संवर्ग के अधिकारी और वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के रूप में कार्यरत श्री बी.के. वर्मा ने 30 सितम्बर, 2006 से इस मंत्रालय से अपना कार्यभार छोड़ दिया है।

जलधि मुखर्जी, प्रशा. अधिकारी (पी बी I और III)

नई दिल्ली, दिनांक 13 दिसम्बर 2006

सं. क्यू/पीए-1/51/2006--श्री टी.सी.ए. रंगाचारी, पेरिस में भारत के राजदूत, दिनांक 14 अक्टूबर, 2006 के पूर्वाह्न से केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमवली 1972 के नियम 48 के अंतर्गत भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड I से स्वेच्छा से सेवा निवृत्त हो गए।

अरिंदम बागची, उप-सचिव (एफ एस पी)

दिनांक 8 दिसम्बर 2006

सं. 22 (फा. सं. ए-32012/1/2005-प्रशा.-VI)--निम्नलिखित सहायक आयकर आयुक्तों को एतद्वारा उनके नाम के सामने दर्शायी गई तारीख (तारीखों) से 10,000-325-15,200 रु. के वेतनमान में आयकर उपायुक्त के रूप में स्थानापन्न रूप से पदोन्नत किया जाता है :--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	कोड	तारीख से
1	2	3	4
	(सर्व/श्री/सुश्री)		
1.	एस.बी. हीरे	00506	1.1.2005
2.	सी.बी. पात्रो	00518	1.1.2005
3.	आर.के. चतुर्वेदी	00560	1.1.2006
4.	एम.एम.एस. अत्तरी	00591	1.1.2006
5.	एस.एम. श्रीवास्तव	00611	1.1.2006
6.	जे.बी. सरोज	00669	1.1.2006
7.	सूर्य चट्टोपाध्याय	00687	1.1.2006
8.	वी.जे. भगत	00748	1.1.2006
9.	रविन्द्र एन. मांझी	00787	1.1.2006
10.	मुस्तफा पाशा	00814	1.1.2006
11.	सत्यसाई रथ	01007	1.1.2006
12.	एन.एम. बन्दावाला	01514	1.1.2006

1	2	3	4
13.	राम भरोसे लाल	01521	1.1.2006
14.	भीमसेन सिंह	01523	1.1.2006
15.	विजय नारायण सिंह	01524	1.1.2006
16.	एस.के. उपाध्याय	01564	1.1.2006
17.	निर्मलजीत सिंह	01590	1.1.2006
18.	नीता अग्रवाल	01595	1.1.2006
19.	जी.एस. केन्दुरकर	01607	1.1.2006
20.	मनतोश भट्टाचार्यजी	01628	1.1.2006
21.	एच.आर. सहरावत	01768	1.1.2006
22.	सत्य प्रकाश	01820	1.1.2006
23.	आर.के. वोहरा	011069	1.1.2006
24.	बी.पी. सिंह	01849	1.1.2006
25.	बी.एस. पठनिया	01902	1.1.2006

2. मुख्य आयकर आयुक्त इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि इन अधिकारियों के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक/आपराधिक कार्यवाही शुरू न की गई हो। यदि किसी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक/आपराधिक कार्यवाई आरंभ की जा चुकी है एवं उन्हें निलम्बित कर दिया गया है, तब अधिकारी को वरिष्ठ वेतनमान प्रदान करने से ठीक पहले बोर्ड को इस बात की सूचना दी जाए।

पी. सी. भट्ट, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 8 दिसम्बर 2006

2006 की सं. 23 (फा. सं. ए-39011/15/2006-प्रशा. VI)--राष्ट्रपति, श्री अमित ढाका, सहायक आयकर आयुक्त (04040) का भारतीय सजस्व सेवा (आयकर) से त्यागपत्र दिनांक 8.12.2006 (अपराह) से स्वीकार करते हैं।

राहुल कश्यप, अवर सचिव

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 26 दिसम्बर 2006

सं. ए-12011/11/2006-प्रशा.1ए--राष्ट्रपति, श्री अमर नाथ को वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में 14,300-400-18,300/- रु. के वेतनमान में दिनांक 22 दिसम्बर, 2006 के पूर्वाह्न से और अगले आदेशों तक निदेशक (राजभाषा) नियुक्त करते हैं।

वी. रामकुमार, अवर सचिव

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 13 दिसम्बर 2006

सं. 13/4/2002-डीआरटी--श्रीमती मीना वी. गोम्बर, आरएचजेएस, पीयूसीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली के पद पर कार्यरत, की सेवाएं, तत्काल प्रभाव से, राजस्थान उच्च न्यायालय को सौंपी जाती हैं।

ए. थॉमस, अवर सचिव

इस्पात मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 दिसम्बर 2006

सं. 2(8)/2006-स्थापना--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश सं. 5/1/2006-सीएस I (डैस्क) के तहत सरकार की आवर्तन नीति के अधीन इस्पात मंत्रालय में नामित होने के फलस्वरूप, राष्ट्रपति दूरसंभार विभाग में अवर सचिव (तदर्थ) श्री एन. राजा को दिनांक 8 नवंबर, 2006 (पूर्वाह्न) से इस्पात मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में अवर सचिव (तदर्थ) के रूप में नियुक्त करते हैं।

जी. वैधीश्वरन, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली-110 011, दिनांक 7 दिसम्बर 2006

सं. ए 12025/1/2002-ई-III--संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति, इस मंत्रालय की मास मेलिंग यूनिट में श्री सुरेश कुमार वत्ता को 1.12.2006 (पूर्वाह्न) से 10,000-325-15,200 रुपए के वेतनमान पर वितरण अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

पी. जी. कलाधरन, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 2 जनवरी 2007

सं. 5-12/2001-आई.एन.एम.-ए--राष्ट्रपति, कृषि एवं सहकारिता विभाग के एक अधीन कार्यालय केन्द्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद में 12,000-16,500 रु. के वेतनमान में संयुक्त निदेशक (पुराना पदनाम मुख्य विश्लेषक) (सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय) के पद पर कार्यरत श्री आर. एन. घोष की तदर्थ नियुक्ति को 7 जुलाई 2006 से 6 जनवरी 2007 तक या अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, आगे बढ़ाते हैं।

डी. के. राय, अवर सचिव

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली-110 001, दिनांक 29 दिसम्बर 2006

सं. ए.15012/8/2006-प्रशासन-1--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर श्री ए.पी. त्यागी, उप सचिव 31 दिसम्बर, 2006 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

पी. एल. मीना, अवर सचिव

सं. ए.15012/9/006-प्रशासन-1--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर श्री गुरुचरण दास, निजी सचिव 31 दिसम्बर, 2006 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

पी. एल. मीना, अवर सचिव

ग्रामीण विकास मंत्रालय

नई दिल्ली-110 001, दिनांक 13 अक्टूबर 2006

सं. ए-11015/1/2004-स्था. I--राष्ट्रपति, श्री एस.सी. गौतम, आईईएस (1973) को ग्रामीण विकास मंत्रालय में दिनांक 6 अक्टूबर, 2006 (पूर्वाह्न) से मुख्य आर्थिक सलाहकार के पद पर नियुक्त करते हैं।

एच. सी. बवेजा, अवर सचिव

दिनांक 29 नवम्बर 2006

सं. ए-12022/7/2006-स्थापना-I--राष्ट्रपति, श्री जितेन्द्र कुमार, आई. एफ.एस. (ए.जी.एम.यू.टी. : 87) को ग्रामीण विकास मंत्रालय में दिनांक 20.11.2006 के पूर्वाह्न से 5 वर्ष की अवधि अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

एच. सी. बवेजा, अवर सचिव

दिनांक 30 नवम्बर 2006

सं. ए-19011/1/2006-स्थापना-I--मंत्रिमंडल सचिवालय में सचिव (समन्वय एवं लोक शिकायत) के पद पर नियुक्ति हो जाने के फलस्वरूप, डा. (श्रीमती) रेणुका विश्वनाथन, आई.ए.एस. (कर्नाटक : 71) ने दिनांक 30 नवम्बर, 2006 के अपराह्न से ग्रामीण विकास विभाग में सचिव के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

एच. सी. बवेजा, अवर सचिव

सं. ए-19011/3/2006-स्थापना-I--राष्ट्रपति, डॉ. सुबाष चन्द्र पाणी, आई.ए.एस. (उड़ीसा : 72) को 30 नवम्बर 2006 के अपराह्न से ग्रामीण विकास विभाग में सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

एच. सी. बवेजा, अवर सचिव

दिनांक 27 दिसम्बर 2006

सं. ए-12022/8/2006-स्था. I--राष्ट्रपति, सुश्री सुनीता एच. खुराना, सीएसएस को ग्रामीण विकास विभाग में दिनांक 13.12.2006 (पूर्वाह्न) से निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

एच. सी. बवेजा, अवर सचिव

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

नई दिल्ली-110 001, दिनांक 30 नवम्बर 2006

सं. पी.एफ./आर./93-प्रशासन--राष्ट्रपति राष्ट्रमंडल खेल, 2010 से संबंधित कार्य की देखरेख के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रभाग में संयुक्त सचिव के नव सृजित पद पर श्री राहुल भटनागर, भारतीय प्रशासनिक सेवा (उत्तर प्रदेश : 1983) को युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में 18,400-500-22,400/- रुपए के वेतनमान में 21 नवम्बर, 2006 (अपराह्न) से सहर्ष नियुक्त करते हैं।

श्री भटनागर 31 मार्च, 2011 अथवा अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक संयुक्त सचिव के पद पर बने रहेंगे।

न. बी. मुखर्जी, अवर सचिव

संस्कृति मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 22 दिसम्बर 2006

सं. एफ. 7-1/99-एम-1--संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सुश्री अनामिका पाठक के चयन के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति उक्त सुश्री अनामिका पाठक, उप संग्रहाध्यक्ष (सज्जा-कलाएं), राष्ट्रीय संग्रहालय को, दिनांक 5 दिसम्बर, 2006 (अपराह्न) से तथा अगले आदेश होने तक, 10,000-15,200/- रु. के वेतनमान में संग्रहाध्यक्ष (सज्जा कलाएं), राष्ट्रीय संग्रहालय के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने हेतु नियुक्त करते हैं।

अंजू भल्ला, अवर सचिव

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

नई दिल्ली-110 001, दिनांक 22 दिसम्बर 2006

सं. 16011/2/2002-एससीडी-IV--राष्ट्रपति, इस मंत्रालय के दिनांक 21.11.2006 की अधिसूचना सं. 16011/2/2002-एससीडी-IV के आंशिक आशोधन में, श्री आर.एल. बनर्जी, निदेशक (एस.सी.टी. व डी.आर.टी.) को श्री आर.के. शर्मा, उप सचिव के स्थान पर शासकीय निदेशक के रूप में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के निदेशक मंडल में तत्काल प्रभाव से तथा अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

डी. के. सिंह, निदेशक

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 27 दिसम्बर 2006

सं. 400-52/2002-एसटीजी-III--भारतीय दूरसंचार सेवा समूह 'क' के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारी श्री राम अधर गुप्ता (स्टफ सं. 2252), जो भारत संचार निगम लिमिटेड के राजस्थान दूरसंचार सर्किल में महाप्रबंधक के रूप में कार्य कर रहे थे, का दिनांक 27.09.2006 को निधन हो गया।

अमरजीत सिंह, अवर सचिव

(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र

नई दिल्ली-110 003, दिनांक 29 दिसम्बर 2006

सं. एनआईसी/पीएफ/0444/2006-का. व स्था.-I--राष्ट्रपति, एतद्वारा श्रीमती अलामेलू सुरेश, (कर्मचारी कोड सं. 0444) की राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, नई दिल्ली से वैज्ञानिक "डी" के पद से स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति दिनांक 29 दिसम्बर, 2006 की पूर्वाह्न से स्वीकार करते हैं। उन्हें उसी दिन से कार्यमुक्त किया जाता है।

आर. एम. नायर, उपनिदेशक (कार्मिक व स्थापना-I)

(डाक विभाग)

नई दिल्ली-110 001, दिनांक 26 दिसम्बर 2006

सं. 1-1/2006-प्रशासन--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश सं. 4/2/2006-सीएस.I दिनांक 31.10.2006 के अनुसरण में, राष्ट्रपति सहर्ष सप्लाई विभाग के अवर सचिव (केन्द्रीय सचिवालय सेवा का ग्रेड-I) श्री एस.के. बंसल को केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड (निदेशक) में पूर्णतया तदर्थ आधार पर डाक विभाग में 12,000-375-16,500 रुपए के वेतनमान में 15.12.2006 (पूर्वाह्न) से नियुक्त करते हैं।

2. यह तदर्थ नियुक्ति उन्हें इस ग्रेड में अनिश्चित अवधि तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल होने या चयन ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने के लिए कोई अधिकार नहीं प्रदान करेगी।

राजेन्द्र कुमार, सहायक महानिदेशक (प्रशासन)

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 27 दिसम्बर 2006

सं. ई(ओ)III-2006/आर एन/34--कॉनकोर में स्थायी समाहन होने के परिणामस्वरूप, श्री के. नारायण, सेलेक्शन ग्रेड/भा.रे.या.इंजी. सेवा ने 18.10.2006 से रेल सेवा से त्यागपत्र दे दिया है।

एम.-के. अग्रवाल, सचिव (रेलवे बोर्ड)

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 21 दिसम्बर 2006

सं. 29/2006 (फा. सं. 3/9/2005-स्थापना-एक)--राष्ट्रपति, केन्द्रीय जल इंजीनियरिंग (समूह क) सेवा के वरिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के अधिकारी, श्री एस.के. दास-II, को दिनांक 1.12.2006 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश होने तक, रु. 26,000/- के वेतनमान में, उसी सेवा में, पदोन्नति पर, अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग के पद पर नियुक्त करते हैं।

के. राजप्पा, अवर सचिव

शहरी विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 दिसम्बर 2006

सं. ए-12025/1/2006-प्रशा-I--राष्ट्रपति द्वारा श्री एम. शकरनारायणन, जो वर्तमान में सहायक सलाहकार (पीएचई) के पद पर कार्यरत हैं, को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से एक साल की अवधि तक अथवा नियमित अधिकारी के पदभार ग्रहण करने की तारीख तक, जो भी पहले हो, केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय इंजीनियरिंग संगठन में तदर्थ आधार पर 12,000-375-16,500/- रुपए के वेतनमान में उप सलाहकार (पीएचई) के पद पर नियुक्त किया जाता है।

2. इस तदर्थ नियुक्ति से अधिकारी को इस ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए वरीयता सूची में शामिल करने अथवा इस ग्रेड में वरिष्ठता का अधिकार नहीं मिलेगा।

सवितुर प्रसाद, निदेशक

PRIME MINISTER'S OFFICE

New Delhi-110 011, the 29th December 2006

No. A. 35020/1/2006-PMA.—The President is pleased to extend the term of appointment of Shri Arun Bhatnagar, IAS (retired) as Secretary, National Advisory Council in the rank and pay of Secretary to the Government of India, on contract basis upto 30 June, 2007.

P. K. ROY, Under Secy.

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 18th December 2006

No. A-43014/03/2006-Admn. II.—Consequent on his promotion to the Junior Administrative Grade (JAG) of Indian Economic Service vide Ministry of Finance, Department of Economic Affairs Order No. 11016/3/2006-IES dated 8.12.2006, Shri Suraj Prakash Rawal is relieved from the post of Senior Research Officer in the Planning Commission with effect from the afternoon of 18th December, 2006.

R. K. PARMAR, Under Secy.

The 21st December 2006

No. A-43014/03/2006/Admn. II.—Consequent on his promotion to the Junior Administrative Grade (JAG) of Indian Economic Service vide Ministry of Finance, Department of Economic Affairs Order No. 11016/3/2006-IES dated 8.12.2006, Shri A. S. Janjriya is relieved from the post of Senior Research Officer in the Planning Commission with effect from the afternoon of 21st December, 2006.

R. K. PARMAR, Under Secy.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(DEPARTMENT OF JUSTICE)

New Delhi-110 011, the 19th December 2006

No. K. 13012/3/2006-US. II.—In exercise of the powers conferred by Clause (1) of Article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint : (i) Shri Justice Bharat Bhushan Agarwal; (ii) Shri Justice Ganga Prasad Srivastava and (iii) Shri Justice Muneendra Kumar Mittal, Additional Judges of the Allahabad High Court, to be Judges of the Allahabad High Court, in that order of seniority, with effect from the dates they assume charge of their respective offices.

DR. P. K. SETH, Joint Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 28th December 2006

No. I-14011/6/2006-IPS. I (I).—In exercise of the provisions contained in Sub-regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the Union Public Service Commission

has on 15.12.2006, approved the year-wise Select List of 2005 and 2006, prepared by the Selection Committee in its meeting held on 30-10-2006, containing the names of the following State Police Service Officers of West Bengal, towards filling up eleven substantive vacancies for Select List of 2005 and eight substantive vacancies for the Select List of 2006 in the IPS West Bengal Cadre :—

SELECT LIST 2005

S. No.	Name of the Officer	Date of Birth
	S/Shri	
1.	Tshering Finehuk Sherpa (ST)	20.09.1954
*2.	Sunil Kumar Halder	02.09.1958
3.	Satyajit Bandopadhyay	01.05.1958
4.	Kalyan Bandopadhyay	19.06.1958
5.	Bhuban Chandra Mondal (SC)	21.10.1952
6.	Smt. Cheeling Simick Lepcha (ST)	02.01.1961
7.	Tamal Basu	06.08.1960
8.	Asit Pal	01.01.1955
9.	Champak Bhattacharyya	31.12.1957
10.	Subrata Bandopadhyay	08.07.1955
11.	Ajoy Kumar Ghosh	03.01.1956

* The name of the Officer at Sl. No. 2 has been included in the list provisionally subject to clearance of Criminal proceedings pending against him and grant of integrity certificate by the State Govt.

SELECT LIST 2006

S. No.	Name of the Officer	Date of Birth
	S/Shri	
*#0-A.	Sunil Kumar Halder	02.09.1958
1.	Dilip Kumar Adak	06.08.1956
2.	Basab Dasgupta	24.01.1962
3.	Ashoke Kumar Biswas (SC)	18.09.1960
4.	Subrata Kumar Mitra (SC)	01.01.1959
5.	Milan Kanta Das	26.05.1957
6.	Kallol Ganai	13.09.1963
7.	Rabindra Nath Mukhopadhyay	29.02.1956
8.	Debasis Boral	01.07.1962

* The name of the Officer at Sl. No. 0-A has been included in the list provisionally subject to clearance of Criminal proceedings pending against him and grant of integrity certificate by the State Govt.

The name of the Officer included at S. No. 0-A in the Select List is in addition to the normal zone of eligible officers and in addition to the normal size of the Select List in accordance with the 2nd proviso to Regulation 5(5) of the Promotion Regulations.

O. S. ASHOK, Under Secy.

No. I-14011/6/2006-IPS. I (II).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of Regulation 9 of the Indian Police Service (Appointment By Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to appoint the following members of West Bengal Police Service to the Indian Police Service on probation and to allocate them to the cadre of West Bengal under sub-rule (1) of the Rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954. The appointments will take effect from the date of issue of this notification :—

SELECT LIST 2005

S. No.	Name of the Officer	Date of Birth
1.	S/Shri Tshering Finehuk Sherpa (ST)	20.09.1954
2.	Satyajit Bandopadhyay	01.05.1958
3.	Kalyan Bandopadhyay	19.06.1958
4.	Bhuban Chandra Mondal (SC)	21.10.1952
5.	Smt. Cheeling Simick Lepcha (ST)	02.01.1961
6.	Tamal Basu	06.08.1960
7.	Asit Pal	01.01.1955
8.	Champak Bhattacharyya	31.12.1957
9.	Subrata Bandopadhyay	08.07.1955
10.	Ajoy Kumar Ghosh	03.01.1956

SELECT LIST 2006

S. No.	Name of the Officer	Date of Birth
1.	S/Shri Dilip Kumar Adak	06.08.1956
2.	Basab Dasgupta	24.01.1962
3.	Ashoke Kumar Biswas (SC)	18.09.1960
4.	Subrata Kumar Mitra (SC)	01.01.1959
5.	Milan Kanta Das	26.05.1957
6.	Kallol Ganai	13.09.1963
7.	Rabindra Nath Mukhopadhyay	29.02.1956
8.	Debasis Boral	01.07.1962

O. S. ASHOK, Under Secy.

The 2nd January 2007

No. I-14011/8/2005-IPS. I (I).—In exercise of the provisions contained in sub-regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the Union Public Service Commission has on 20.12.2006, approved the year-wise Select List of 2002, 2003, 2004 and 2005, prepared by the Selection Committee in its meeting held on 20-10-2006, containing the names of the following DANIPS Officers, towards filling up three substantive vacancies for Select List of 2002, two substantive vacancies for the Select List of 2003, two substantive vacancies for the Select List of 2004 and two substantive vacancies for the Select List of 2005 in the Joint AGMU (UT Segment) Cadre of IPS:—

SELECT LIST 2002

S. No.	Name of the Officer	Date of Birth
1.	S/Shri K. C. Dwivedi	27.05.1955
2.	U. K. Chaudhary	02.09.1952
3.	G. C. Dwivedi	01.09.1955

SELECT LIST 2003

S. No.	Name of the Officer	Date of Birth
1.	S/Shri Purushotam Das (SC)	12.06.1950
2.	Paldan (ST)	15.06.1955

SELECT LIST 2004

S. No.	Name of the Officer	Date of Birth
1.	S/Shri V. Ranganathan	19.03.1957
2.	Ashok Chand	20.06.1955

SELECT LIST 2005

S. No.	Name of the Officer	Date of Birth
1.	S/Shri A. K. Ojha	05.01.1957
2.	V. V. Chaudhary	21.08.1955

O. S. ASHOK, Under Secy.

No. I-14011/8/2005-IPS. I (II).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of regulation 9 of the Indian Police Service (Appointment By Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to appoint the following DANIPS Officers to Joint AGMU (UT Segment) Cadre of the Indian Police Service on probation and to allocate them to the Joint Cadre AGMU

under sub-rule (1) of the Rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) rules, 1954 :—

SELECT LIST 2002

S. No.	Name of the Officer	Date of Birth
	S/Shri	
1.	K. C. Dwivedi	27.05.1955
2.	U. K. Chaudhary	02.09.1952
3.	G. C. Dwivedi	01.09.1955

SELECT LIST 2003

S. No.	Name of the Officer	Date of Birth
	S/Shri	
1.	Purushotam Das (SC)	12.06.1950
2.	Paldan (ST)	15.06.1955

SELECT LIST 2004

S. No.	Name of the Officer	Date of Birth
	S/Shri	
1.	V. Ranganathan	19.03.1957
2.	Ashok Chand	20.06.1955

SELECT LIST 2005

S. No.	Name of the Officer	Date of Birth
	S/Shri	
1.	A. K. Ojha	05.01.1957
2.	V. V. Chaudhary	21.08.1955

2. The appointments will take effect from the date of issue of this notification.

O. S. ASHOK, Under Secy.

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING)

New Delhi, the 28th December 2006

No. 39019/02/2006-Estt. (B).—The President is pleased to appoint Prof. E. Balagurusamy, former Vice-Chancellor, Anna University, Chennai as Member, Union Public Service Commission with effect from the afternoon of 20th December, 2006.

B. M. SEHGAL, Under Secy.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 12th October 2006

No. 05/PB. III/2006.—On attaining the age of superannuation, Shri B. K. Verma, an Officer of Stenographers' Cadre of IFS (B) and working as Senior Principal Private Secretary, relinquished charge of his duties in the Ministry on 30th September, 2006.

JALADHI MUKHERJEE, Administrative Officer (P.B. I & III)

New Delhi, the 13th December 2006

No. Q/PA-1/51/2006.—Shri T. C. A. Rangachari, Ambassador of India, Paris, has retired voluntarily from Grade-I of the Indian Foreign Service under Rule 48 of Central Civil Service (Pension) Rules, 1972, with effect from the forenoon of October 14, 2006.

ARINDAM BAGCHI, Deputy Secy. (FSP)

MINISTRY OF FINANCE (DEPARTMENT OF REVENUE) CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 6th December 2006

INCOME-TAX ESTABLISHMENT

No. 21/A. 32012/9/2006-Ad. VI.—In partial modification of this Department's Notification No. 14 (F. No. A. 32012/1/2005-Ad. VI) dated 19.9.2006, Shri S. K. Shukla (00768) Assistant Commissioner of Income-Tax is hereby promoted to officiate as Deputy Commissioner of Income-Tax in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- w.e.f. 1.1.2005 without prejudice to the stand taken by the Department in the SLP against the order of Rajasthan High Court being filed in the Supreme Court of India and result of the SLP.

2. This issues in compliance of the CAT Jaipur Bench's Order dated 29.03.2005 read with the Hon'ble Tribunal's further order dated 22.11.06 in Contempt Petition No. 59 of 2005 in OA No. 502 of 2004.

P. C. BHATT, Dy. Secy.

The 8th December 2006

No. 22/A. 32012/1/2005-Ad. VI.—The following Assistant Commissioner of Income-Tax are hereby promoted to officiate as Deputy Commissioner of Income-Tax in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- from the date(s) mentioned against their names :—

Sl. No.	Name of Officer	Code	From
1	2	3	4
	S/Shri/Ms.		
1.	S. B. Hire	00506	1.1.2005
2.	C. B. Patro	00518	1.1.2005
3.	R. K. Chaturvedi	00560	1.1.2006
4.	M. M. S. Attri	00591	1.1.2006
5.	S. M. Shrivastava	00611	1.1.2006
6.	J. B. Saroj	00669	1.1.2006
7.	Surya Chhattopadhyay	00687	1.1.2006
8.	V. J. Bhagat	00748	1.1.2006
9.	Rabindra N. Majhi	00787	1.1.2006
10.	Mustafa Pasha	00814	1.1.2006
11.	Satyasai Rath	01007	1.1.2006

1	2	3	4
12.	N. M. Bandrawala	01514	1.1.2006
13.	Ram Bhorse Lal	01521	1.1.2006
14.	Bhimsen Singh	01523	1.1.2006
15.	Vijay Narain Singh	01524	1.1.2006
16.	S. K. Upadhyaya	01564	1.1.2006
17.	Nirmaljit Singh	01590	1.1.2006
18.	Neeta Aggarwal	01595	1.1.2006
19.	G. S. Kendurkar	01607	1.1.2006
20.	Mantosh Bhattacharjee	01628	1.1.2006
21.	H. R. Sehrawat	01768	1.1.2006
22.	Satya Prakash	01820	1.1.2006
23.	R. K. Vohra	011069	1.1.2006
24.	B. P. Singh	01849	1.1.2006
25.	B. S. Pathania	01902	1.1.2006

2. The Chief Commissioner of Income Tax (CCA) shall ensure that no disciplinary/Criminal proceedings are initiated against these officers. In case a disciplinary/criminal proceedings has been initiated against an officer and he is placed under suspension, the same may be reported to the Board immediately before the officer is granted Sr. Scale.

P. C. BHATT, Dy. Secy.

New Delhi, the 8th December 2006

INCOME TAX ESTABLISHMENTS

No. 23 of 2006 F. No. A. 39011/15/2006-Ad.VI.—The President is pleased accept the technical resignation of Shri Amit Dhaka, Assistant Commissioner of Income Tax (04040) from Indian Revenue Service (Income Tax) w.e.f. 8.12.2006 (A.N.).

RAHUL KASHYAP, Under Secy.

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 26th December 2006

No. A. 12011/11/2006-Admn. IA.—The President is pleased to appoint Shri Amar Nath as Director (OL) in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs in the pay scale of Rs. 14,300-400-18,300/- with effect from the forenoon of 22nd December, 2006 and until further orders.

V. RAMKUMAR, Under Secy.

(BANKING DIVISION)

New Delhi, the 13th December 2006

No. 13/4/2002-DRT.—The services of Smt. Meena V. Gomber, RHJS, presently working as Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal-III, Delhi, are placed back at the disposal of Rajasthan High Court, with immediate effect.

A. THOMAS, Under Secy.

MINISTRY OF STEEL

New Delhi, the 11th December 2006

No. 2(8)/2006-Estt.—Consequent upon his nomination to the Ministry of Steel under the Rotation Policy of the Govt. vide Department of Personnel and Training Order No. 5/1/2006-CS I (Desk) dated 23.10.2006, the President is pleased to appoint Shri N. Raja, Under Secretary (ad-hoc) in Department of Telecommunications as Under Secretary (ad-hoc) in the CSS cadre of the Ministry of Steel w.e.f. the forenoon of 8th November, 2006.

J. VAIDHEESWARAN, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi-110 011, the 7th December 2006

No. A. 12025/1/2002/E-III.—On the recommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Shri Suresh Kumar Vatta to the post of Distribution Officer in the Mass Mailing Unit (MMU) of this Ministry in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from 01.12.2006 (F.N.).

P. G. KALADHARAN, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 2nd January 2007

No. 5-12/2001-INM-A.—The President is pleased to further extend the ad-hoc appointment of Shri R. N. Ghosh as Joint Director (Old designation Chief Analyst) (General Central Service, Group A Gazetted, Non Ministerial) in the pay of Rs. 12,000-16,500/- under Central Fertilizer Quality Control and Training Institute Faridabad, a subordinate office under the Department of Agriculture & Cooperation with effect from 7th July 2006 to 6th January 2007 or until further orders, whichever is earlier.

D. K. ROY, Under Secy.

(DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING & FISHERIES)

New Delhi, the 29th December 2006

No. 15012/8/2006-Admn.I.—On attaining the age of superannuation, Shri A. P. Tyagi, Deputy Secretary in this Department retires from Government service with effect from the afternoon of 31st December, 2006.

P. L. MEENA, Under Secy.

No. 15012/9/2006-Admn. I.—On attaining the age of superannuation, Shri Gurucharan Das, Private Secretary in this Department retires from Government service with effect from the afternoon of 31st December, 2006.

P. L. MEENA, Under Secy.

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

New Delhi-110 001, the 13th October 2006

No. A-11015/1/2004-Estt. I.—The President is pleased to appoint Shri S. C. Gautam, IES (1973) as Chief Economic Adviser in the Ministry of Rural Development with effect from the forenoon of 6th October 2006.

H. C. BAVEJA, Under Secy.

The 29th November 2006

No. A-12022/7/2006-Estt. I.—The President is pleased to appoint Shri Jitendra Kumar, IFS (AGMUT : 87) as Director in the Ministry of Rural Development with effect from the forenoon of 20.11.2006 for a period of 5 years or until further orders, whichever event takes place earlier.

H. C. BAVEJA, Under Secy.

The 30th November 2006

No. A-19011/1/2006-Estt. I.—Consequent upon her appointment as Secretary (Coordination & Public Grievances), Cabinet Secretariat, Dr. (Smt.) Renuka Viswanathan, IAS (KN : 71) has relinquished the charge of the post of Secretary in the Department of Rural Development with effect from the afternoon of 30th November 2006.

H. C. BAVEJA, Under Secy.

No. A-19011/3/2006-Estt. I.—The President is pleased to appoint Dr. Subas Chandra Pani, IAS (OR : 72) as Secretary, Department of Rural Development with effect from the afternoon of 30th November 2006.

H. C. BAVEJA, Under Secy.

The 27th December 2006

No. A-12022/8/2006-Estt. I.—The President is pleased to appoint Ms. Sunita H. Khurana, CSS as Director in the Department of Rural Development with effect from the forenoon of 13th December 2006.

H. C. BAVEJA, Under Secy.

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS & SPORTS

New Delhi-110 001, the 30th November 2006

No. PF/R/93-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Rahul Bhatnagar, Indian Administrative Service (Uttar Pradesh : 1983) as Joint Secretary in the Ministry of Youth

Affairs & Sports in the pay scale of Rs. 18,400-500-22,400/- with effect from 21st November, 2006 (Afternoon) against a newly created post for International Sports Division to oversee the work relating to Commonwealth Games, 2010.

The appointment of Shri Bhatnagar as Joint Secretary would be till 31st March, 2011 or until further orders, whichever event takes place earlier.

B. B. MUKHERJEE, Under Secy.

MINISTRY OF CULTURE

New Delhi, the 22nd December 2006

No. F. 7-1/99-M-I.—Consequent upon her selection by the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Ms. Anamika Pathak, Deputy Curator (Decorative Arts), National Museum to officiate as Curator (Decorative Arts) in National Museum in the pay scale of Rs. 10,000-15,200/- with effect from 5th December, 2006 (A.N.) and until further orders.

ANJU BHALLA, Under Secy.

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

New Delhi, The 22nd December 2006

No. 16011/2/2002-SCD-IV.—In partial modification of this Ministry's notification No. 16011/2/2002-SCD-IV dated 21.11.2006 the President is pleased to appoint Shri R. L. Banerjee, Director (SCT & DRT), as Official Director, in place of Shri R. K. Sharma, Deputy Secretary on the Board of Directors of National Scheduled Caste Finance and Development Corporation (NSFDC), with immediate effect and till further orders.

D. K. SINGH, Director

MINISTRY OF COMMUNICATIONS & IT (DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS)

New Delhi-110001, the 27th December 2006

No. 400-52/2002-STG-III.—Shri Ram Adhar Gupta (Staff No. 2252), an Officer of Senior Administrative Grade of Indian Telecommunications Service Group 'A', who was working as General Manager in Rajasthan Telecom. Circle of Bharat Sanchar Nigam Ltd., expired on 27.09.2006.

AMARJIT SINGH, Under Secy.

(DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY) NATIONAL INFORMATICS CENTRE

New Delhi-110003, the 29th December 2006

No. NIC/PF/444/2006/P&E-I.—The President is pleased to accept the Voluntary Retirement of Smt. Alamelu Suresh, Emp. Code : 0444 from the post of Scientist "D", National Informatics Centre, New Delhi from the forenoon of 29/12/2006 and she is relieved of her duties from the same day.

R. M. NAIR, Deputy Director (P&E-I)

(DEPARTMENT OF POSTS)

New Delhi-110 001, the 26th December 2006

No. 1-1/2006-Admn.—In pursuance of Department of Personnel and Training's Order No. 4/2/2006-CS.I dated 31.10.2006, the President is pleased to appoint Shri S. K. Bansal, Under Secretary (Grade I of CSS) in the Department of Supply to Selection Grade of CSS (Director) on purely ad-hoc basis in the Department of Posts, in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- with effect from 15.12.2006 (F/N) until further orders.

2. The ad-hoc appointment shall not confer on the officer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Selection Grade.

RAJINDER KUMAR

Assistant Director General (Admn.)

 MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 27th December 2006

No. E(O)III-2006/RN/34.—Consequent upon his permanent absorption in COMOR, Shri K. Narayan, Selection Grade/IRSME, has resigned from Railway service with effect from 18-10-06.

M. K. AGARWAL, Secy. (Railway Board)

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 21st December 2006

No. 29/2006, File No. 3/9/2005-Estt./I.—The President is pleased to appoint, on promotion, Shri S. K. Das-II, an officer in the Higher Administrative Grade of the Central Water Engineering (Group 'A') Service to the post of Chairman, Central Water Commission in the same service in the pay scale of Rs. 26,000/- fixed with effect from 01.12.2006 (FN).

K. RAJAPPA, Under Secy.

 MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

New Delhi, the 26th December

No. A-12025/1/2006-Admn. I.—The President is pleased to appoint Shri M. Sankaranarayanan presently working as Assistant Adviser (PHE) to the post of Deputy Adviser (PHE) in the Central Public Health and Environmental Engineering Organization in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- on adhoc basis for a period of one year from the date of joining or till a regular incumbent takes charge of the post, whichever is earlier.

2. The adhoc promotion shall not confer any right on the officer to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Seniority List for regular appointment or to claim seniority in the Grade.

SAVITUR PRASAD, Director